



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अगस्त 5—अगस्त 11, 2007, शनिवार/श्रावण 14—श्रावण 20, 1929
No. 15] NEW DELHI, AUGUST 5—AUGUST 11, 2007, SATURDAY/SRAVANA 14—SRAVANA 20, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2007

आ. अ. 40.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट आन्ध्र प्रदेश विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2004, के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	112—पारचुर	श्री अकुला नागेश्वर राव, 6-35 टॉलगेट बाजार,	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
		पारचुर ग्राम एवं मंडल प्रकासम जिला, आन्ध्र प्रदेश	
2.	113-मारतुर	श्री कम्मा सुब्बाराव, म. सं. 12-227 पंचायती ऑफिस के निकट, मातुर ग्राम एवं मारतुर मंडल आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	113-मारतुर	श्री कोन्नागुण्टा लक्ष्मी नारायणा, म. सं. 9-201 चौधरी कालोनी, मातुर ग्राम एवं मंडल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	113-मारतुर	श्रीमती गोडिटपति राजेश्वरी, म. सं. 5-13 बी यद्दनपुडि पोस्ट एवं मंडल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
5.	113-मारतुर	श्री लाम वीरान्जनेयुलू, बोण्णुदिवारी पालेम (पोस्ट) मुन्डलामुरु (मण्डल), आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
6.	115-ऑंगोले	श्री बोंददलुरि आन्जनेयलु, सुपुत्र श्री परयया, म. सं. 5-92/3 वेंकटेश्वरा नगर, एन जी ओ कालोनी ऑंगोले, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
7.	120-कुम्बुम	श्री शैख अब्दुल हकीम, चिन्न कन्दुकुरु (वी) अर्धवीडू (एम), आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
8.	120-कुम्बुम	श्री मधुसूदन राव जम्मुलादिन्ने, रविपाडु (वी), कुम्बुम (एम), आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	120-कुम्बुम	श्री इन्दला नीकंठ रेड्डी, तेरु वाजार, बेस्तावरपेटा, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
10.	120-कुम्बुम	श्री राम सुभा रेड्डी सुरेड्डी, तर्लुपाडु (वी), तर्लुपाडु (एम), आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
11.	122—मार्कापुर	श्री रामि रेड्डी येरूवा, 10-1062—डी मार्कापुर, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/आ.प्र.-वि.स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 7th August, 2007

O.N. 40.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2004 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice, or, the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	112—Parchur	Sh. Akula Nageswara Rao, 6-35, Tollgate Bazar, Parchur Village & Mandal, Prakasam District, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
2.	113—Martur	Sh. Kamma Subbarao, H. No. 12-227 Near Panchayati Office, Martur Village & Martur Mandal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
3.	113—Martur	Sh. Kondragunta Lakshmi Narayana, H. No. 9-201, Chowdary Colony, Martur Village & Mandal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
4.	113—Martur	Smt. Gottipati Rajeswari, H. No. 5-13B, Yaddanapudi Post & Mandal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
5.	113—Martur	Sh. Lam Veeranjanyulu, Boppudivari Palem (Post), Mundlamuru (Mandal), Andhra Pradesh.	Accounts not lodged

1	2	3	4
6.	115—Ongole	Sh. Bodduluri Anjaneylu, S/o. Sh. Peraiah, H. No. 5-92/3, Venkateswara Nagar, N.G.O. Colony, Ongole, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
7.	120—Cumbum	Sh. Shaik Abdul Hakeem, Chinna Kandukuru (V), Ardhaveedu (M), Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
8.	120—Cumbum	Sh. Madhusudhana Rao Jammuladinne, Ravipadu (V), Cumbum (M), Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
9.	120—Cumbum	Sh. Indla Neelakanta Reddy, Teru Bazar, Bestawarapeta, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
10.	120—Cumbum	Sh. Rama Subha Reddy Sureddy, Tarlupadu (V), Tarlupadu (M), Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
11.	122—Markapur	Sh. Rami Reddy Yeruva, 10-1062-D, Markapur, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged

[No. 76/AP-LA/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2007

आ.अ. 41—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दमण और दीव एवं दादरा और नागर हवेली के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री धर्मेन्द्र, आई.ए.एस., के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार गुप्ता (ए.जी.एम.यू.:1989) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए दमण और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. आयोग, दमण और दीव एवं दादरा और नागर हवेली में पूर्णकालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जोर नहीं दे रहा है और श्री गुप्ता को अपने नियमित अतिरिक्त कार्यभार अपने पास रखने की अनुमति देता है।

[सं. 154/डी.एन.एच./2007-का. प्रशासन.]

आदेश से,

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2007

O.N. 41.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli hereby nominates Shri Praveen Kumar Gupta, IAS (AGMU : 1989) as the Chief Election Officer for the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri Dharmendra, IAS.

2. The Commission is not insisting on a full-time Chief Electoral Officer in the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli and has allowed Shri Gupta to retain his regular additional charges.

[No. 154/DNH/2007-P. Admn.]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.